

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया में 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन

जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग, दंत चिकित्सा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने आज 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के उपलक्ष्य में "कमिट टू क्रिट: चैलेंजेस फॉर टोबैको सेसेशन एंड रोडमैप फॉर रिसर्च" शीर्षक पर एक राष्ट्रीय वेबिनार (ऑनलाइन) का आयोजन किया। जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूके में फैकल्टी डॉ. मनु राज माथुर, रिसोर्स पर्सन थे।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर कार्यक्रम की मुख्य संरक्षक रहीं। उन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इस तरह के ज्ञानवर्धक वेबिनार के आयोजन के लिए दंत चिकित्सा संकाय को बधाई दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) वामसी कृष्ण रेड्डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के महासचिव और अनिल नीरुकोनाडा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, आंध्र प्रदेश के डीन थे। प्रोफेसर रेड्डी ने प्रो. (डॉ.) संजय सिंह, डीन, दंत चिकित्सा संकाय के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अतिथि वक्ता का स्वागत किया।

डॉ. माथुर ने अपने व्याख्यान में उन जरूरतों, उपायों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिन्हें हमारे देश भारत द्वारा तंबाकू के उपयोग का मुकाबला करने के लिए गौर की आवश्यकता है। उन्होंने तंबाकू के नुकसान के बारे में महिलाओं और युवाओं को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण के लिए भविष्य के अनुसंधान में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी चर्चा की।

व्याख्यान के बाद जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग की सहायक प्रोफेसर और कार्यक्रम की मेजबान डॉ. अदिति वर्मा द्वारा जिज्ञासु श्रोताओं के प्रश्नों को के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया।

व्याख्यान के बाद, एक शपथ समारोह आयोजित किया गया जहां सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों ने किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन नहीं करने और तंबाकू उपयोगकर्ताओं को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। शपथ समारोह और धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग के विभाग प्रभारी और कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रो. (डॉ.) अभिषेक मेहता ने संभाला।

व्याख्यान में भारत, नेपाल और यूके के 150 से अधिक प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया